



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 29 दिसम्बर, 2022

पौष 8, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 4059/9-1-2022-69परि0-22

लखनऊ, 29 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

प0आ0-1035

चूँकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 11-ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा नगर पालिका परिषद लोनी, जिला गाजियाबाद, के नगर निकाय क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में जनसामान्य से आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने हेतु अनन्तिम अधिसूचना संख्या 3440/9-1-2022-69परि0-22, दिनांक 05 नवम्बर, 2022 निर्गत की गयी थी एवं तत्क्रम में प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कराते हुए अन्तिम अधिसूचना संख्या 3504/9-1-2022-69परि0-22, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 निर्गत की गयी थी।

और, चूँकि, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या रिट सी-39664/2022, दर्शन सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य में पारित आदेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 द्वारा नगर पालिका परिषद लोनी, जिला गाजियाबाद, के नगर निकाय क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन सम्बन्धी अनन्तिम अधिसूचना संख्या 3440/9-1-2022-69परि0-22, दिनांक 05 नवम्बर, 2022 स्थगित किया गया है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद लोनी, जिला गाजियाबाद, के नगर निकाय क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में जनसामान्य से आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने हेतु शासन द्वारा निर्गत अनन्तिम अधिसूचना संख्या 3440/9-1-2022-69परि0-22,

दिनांक 05 नवम्बर, 2022 एवं तत्कम में निर्गत अन्तिम अधिसूचना संख्या 3504/9-1-2022-69परी0-22, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 को निरस्त की जाती है।

आज्ञा से,
अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4059/IX-1-2022-69Pari.-22, dated December 29, 2022:

No. 4059/IX-1-2022-69Pari.-22

Dated Lucknow, December 29, 2022

WHEREAS in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 11-B of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) (hereinafter referred to as the "aforesaid Act") the notification no. 3440/IX-1-2022-69Pari.-22, with regard to the delimitation of wards of Municipal area of Nagar Palika Parishad Loni, district Ghaziabad was issued on November 5, 2022 and after considering objections received in pursuance of the order published the Final Notification no. 3504/IX-1-2022-69Pari.-22 was issued on November 10, 2022;

AND, WHEREAS, Hon'ble High Court Allahabad has passed an order dated December 23, 2022 in writ petition no. Writ C-39664/2022, Darshan Singh Vs State of Uttar Pradesh and 02 others staying the effect/implementation of Notification dated November 5, 2022 delimitation of Nagar Palika Parishad Loni in district Ghaziabad;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 11-B of the aforesaid Act Notification no. 3440/IX-1-2022-69Pari.-22, dated November 11, 2022 and the Final Notification no. 3283/IX-1-2022-69Pari.-22, dated November 10, 2022 with regard to the delimitation of wards of Municipal area of Nagar Palika Parishad Loni, district Ghaziabad, is hereby rescinded.

By order,
AMRIT ABHIJAT,
Pramukh Sachiv.